

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग / Indian Audit and Accounts Department

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़ - 160 020

Office of the Principal Accountant General (audit) Haryana, Chandigarh - 160 020

[सरकारी अधिकारी द्वारा प्रशासन को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण]

[Statement to be furnished on half-yearly basis by the Government Officer to Administration]

- 1 आवेदक का नाम/ Name of the Applicant
- 2 पदनाम/ Designation
- 3 अनुभाग/ Section
- 4 पे-लेवल और मूल वेतन (रुपए)/
Pay Level & Basic Pay (Rs.)
- 5 * सेलरी कोड एवं पे कोड/
* Salary Code & Pay Code
- 6 * बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ/
* Bank Acc. No with IFSC Code
- 7 * मोबाइल नंबर/ * Mobile No/

(* मार्क अनिवार्य है)/ (* Mark is Mandatory)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने निम्नलिखित के लिए समाचार पत्र (पत्रों) की खरीद के लिए
..... रूप खर्च किए हैं:

I certify that I have spent Rs.....towards
purchase of Newspaper (s) for the of:

(केवल एक विकल्प पर निशान लगाना है) / (only one option is to be ticked)

- (i) जनवरी से जून, 20 / January to June, 20
- (ii) जुलाई से दिसंबर 20 / July to December 20

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि: / I further declare that:

- (i) जिन समाचारपत्रों के संबंध में प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, वे मेरे द्वारा खरीदे गए हैं।
The Newspaper(s) in respect of which reimbursement is claimed, is/are purchased
by me.
- (ii) जिस राशि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है, उसका वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान किया गया
है और किसी अन्य स्रोत द्वारा दावा नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा।
The amount for which reimbursement is being claimed has actually been paid by me
and has not/will not be claimed by any other source.

हस्ताक्षर/SIGNATURE

दिनांक:

आवेदक का पूरा नाम /

DATE:

Full Name of Applicant